KC-13/

Registered Office: Park Plaza 71, Park Street, 7th Floor Kolkata-700 016

Tel : + 9 1 - 3 3 - 4 0 3 1 - 3 2 0 0 Fax : + 9 1 - 3 3 - 4 0 3 1 - 3 2 2 0 CIN :L24110WB1960PLC024910

CIN :L24110WB1960PLC024910 E-mail :calall@kanoriachem.com Website:www.kanoriachem.com

August 22, 2018

The Manager-Listing National Stock Exchange of India Ltd "Exchange Plaza", Plot No.C/1, 'G' Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051

BSE Limited New Trading Ring, Rotunda Building, P.J.Towers Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001

Security Code No. 50 6525

Symbol: KANORICHEM

Dear Sir/s,

Sub: Intimation pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - Publication of Notice

Pursuant to Regulation 30 read with Part A Para A of Schedule III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are sending herewith scanned copy of the public notice published in the news papers on 22.08.2018 (Business Standard- English and Aaj Kal –Bengali), in terms of rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015.


You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely, For Kanoria Chemicals & Industries Limited

N K Sethia Company Secretary

Enc: as above





KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L24110WB1960PLC024910

Registered Office: "Park Plaza", 71 Park Street, Kolkata – 700 016 Phone: (033) 4031 3200

email: investor@kanoriachem.com Website: www.kanoriachem.com

NOTICE

(A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 13th September, 2018 at 3.00 P.M. at Shripati Singhania Hall in Rotary Sadan, 94/2, Chowringhee Road, Kolkata 700020 (near to Nehru Children Museum), to transact the businesses as set out in the AGM Notice. The AGM Notice along with Attendance Slip and Proxy Form and the Annual Report for the year ended 31th March, 2018 have been sent electronically to the Members (other than those who have requested for physical copy) to their email address as registered with the Company or their Depository Participant (DP). Physical copy of the aforesaid documents has also been dispatched to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website www.kanoriachem.com

(B) Book Closure

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 7th September, 2018 to 13th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31th March, 2018 as recommended by the Board of Directors, if approved by the Members at the 58th Annual General Meeting of the Company.

(C) E-voting

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on the resolutions proposed to be considered at the 58th Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Thursday, the 13th September, 2018 at 3.00 P.M. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication regarding User ID and password for remote e-voting and the Notice of the AGM containing the instructions for remote e-voting have been sent to the Members. This communication and the AGM Notice are also available on the Company's website www.kanoriachem.com and the website of NSDL www.kanoriachem.com and the website of NSDL www.kanoriachem.com and the website of NSDL

The remote e-voting shall commence on 10th September, 2018 (at 9.00 A. M.) and end on 12th September, 2018 (at 5.00 P. M.). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Further, once the vote on a resolution is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently.

6th September, 2018 has been fixed as the cut-off date for casting vote by remote evoting and voting at AGM by the Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 6" September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rda@cbmsl.com or rinvestor@kanoriachem.com mentioning his/her Folio Number/DPID and Client ID. However, if the said Member is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. If any Member forgets his password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com


The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Company shall provide the facility for voting through Polling Paper at the AGM and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their voting right at the Meeting through Polling Paper. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting, the Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at email: evoting@nsdl.co.in

Further details with regard to the above are available at the website of the Company www.kanoriachem.com and the websites of the stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Kanoria Chemicals & Industries Limited

Place : Kolkata Date : 21" August, 2018 N. K. Sethia Company Secretary



কলকাড়া বুছবার ২২ আপস্ট ২০১৮



কানোরিয়া কেমিক্যালস আভ ইভাস্থিক লিমিটেড

CEN ESTITION BETWEEN CREATE CO. 120. (MRI (1945) \$165 0

rindem.com, spreedle and

of the ball and the term of personal state after state and pulment समुद्रिक क्षात बुक्तमारिकार, उक्त तथानीवन, १८६४ वित्रक करोत, सैन्योंने नेपालीक क्षत celefy next, and a classific case, we wright now many on come from follows HING, after feelige words traces brace; after limit, we carrie ছিল ম প্ৰতি কৰাও ৫০ মান ১০০১ লাভ বাজি বিশেষ্ট কান্যালে লোভাক কৰিব কৰ क्षेत्र काट्राल महिलाहरू प्रोत संवीता है तथा विकास हात्रिय संतर से जान्यविक an proof o ficelette officered & can affe elevate services saint trees. Do such permits according to a hard annual control of the control of

(4) tilt re

(see chills; wellcomes are through freezonceits) concerns and ex ant widt were the wide currelle and tone of ३३ क्या क्यूबर्टी कारत सिक्षी करी शुक्र हुए त्यान्तरीय तथा त्यांक्रित व न्याव इक्ष्मय वर्ष ७,५४६, २००७ गरीत स्थापन प्रिविचक साम्य व (कन्यतीय १०४० वर्षीक copies many cost was followed and perfection and a colleged, which cotton has perfect, and other the species on single

m t-cent

निक कार्त २०१० तर मार १०० महामारिक (मान्यनिक (मान्यहर्पन कार्य काल्यांत वर अन्यांतर १० वर बहुत अवस्थ का हिल्ला वह स्वांत्रिक का है अपने कार्य का स्वांत्रिक है। अपने क्षेत्रिक कार्य २०७४ - १० वर १० - वह स्वांत्रिक कार्य विवास कार्य कार्य है। profes, tobe wifer one aim suffers us makes from beginn when impigent tete meen jobige leigt nada einen dies agte lein cell free more (level \$ cells) pared armor friedliffe ficerions MINITO (evenification) of 2 cultivate on principle action.

दिएको है - इस्तीर- कर कर विकास पार्ट के क्या मामवार्थ सम्मानिक क्या जार दिएकी है-एक्टीर- वह विकास कार्या कार्या के विकास कर स्थाप अन्यास करह महिला इत्साम क्षेत्र मार्ग क्षा क्षित्रम का त्यक्ति (कान्यांना व्यानवर्ति अपन baser the property was district as exclusive the manufacture

विद्वारी हैं - त्यांकि ५० (मा नेवर, १०५५ (म काम और) प्राप्तित एक प्रत्य वारा ५६ (मा 2000 (विद्यमा को) परिद्राम तमा द्वार के क्वांच्य करा समापन मात निर्देश हैं । त्यांचि अनुप्राणिक द्रार मा। व अपन्य अवकार त्यांत्र पति शक्कारक गएक वाकार (पति हम्म

भारतारी अबदार अविकास्त्रान्त्र सन्त्राति (भारता सहस्र ना

figure 2 could are continued and a country, according to be written figure forthe exice are over wrone or figuration order come कारण (बाल्लाविक सम्बन्धार दशके निएड लाहुद्याः अन्यम यकि विकि वार्तिन कन्यारी बोर यह कामात्मा हास्त्रिहर क वित्यांकीर कहन व्यक्त वृत्तिहरूकीय हास्त्रीहर र्वाचकृत प्राप्तः तककारात्र विभिन्ने त्याप्ति मित्र कार्याच्या वया विभिन्नि विद्याने हे त्याति । कृषित गाएक बना बोक्स्य-स एसी निए महास

(प cates क्षेत्र पांट (कान्यामित (मारा मात्र क्षेत्र अक्षेत्र) का शाकि (माराप पर) (कामाधिक सरम शासन करा विशेष वारित क सार्नेशम् २०३० संस्थाते (मध्य सार्के कहासन विशेष की (क्षीन्त) (प्राणिक नेप्य विशेष सार्वीक ताम करहेले सार्वीक स्टेशन स्टर Commenced Company and an accordance area and an analysis of the company of the co figul 2-jufft ar mit anarthus in nitige mien uten fall ufe (willered) and the female Claim with any window could have wrong क्षी (कारत अल्या क्षीर मानवारार्व कृतम या- ब्राह्मण क्षित्रे अभागादावर्वका तस्त्री हर on med Torgot mer Details Password" terete bengg mes emutes foreit

margins who almost our size focus it could not when costs focuse, who अधिकार अ विनामित सावदक गाउन करन किम् मुनवार कोव दक्षी मिरक मावदकर

কোল্পান এজিএম-এ পোলা পেলাবো কেক্ট্রি এর প্রবন্ধ করতে এবা সভার উপন্তিত अस्त्रकाल प्रोटा विद्वारी हैं - (काहिर-कर प्रायात्म कोलत दश्मी दस्मीन कोला त्यांनर (याणा, कर

মাজনে সভাতে ভাগের ভোটাবিকার হারেল কল্পর পাবারন

B-কোনি সম্পতিত সুবিধা দংশতিত যে কোনত বাবনো বিভাগে অভিযোগ বাবে ভাগে। Marketin Rain excession unit com the superior canada and Camada an mit &-Cougs agent richen von Constituentes mit ficettage man DESIGNATION (NEWSTREET) CHACLE ASSESSED AS CHIEF HE THEORY FOR PROPERTY CAMP

कर्ता क भारतम वो क्ष्मावा <u>का क्षमान्त्रीय का प्रतान के प्रतान के</u> to exclusion or only annihilation of annacoda con-ca RME MEET

480

ক্রনেরিয়া কেমিকালস জাত ইভাস্ট্রিক নিমিটের এব শক্ত

सन (स (न्हींस

M 45 WHE, 4051

(कान्नद्वीर इस्टान्स्ट्रीक

> १ कम मार्थिक मार्थायन महा, বৃক ক্লোজার ও বিমোট ই-জেটবান দক্ষেত্র বিজ্ঞান্তি

बावकार विकास (रक्ता प्राप्त (ए कारण सर्वे देशकारिकोण निविद्योग-वन (म (कल्लावि) ५१%) प्र मक्षा (बक्रिया) कृतवार, ३२ इम्प्लिया, २०३५ सूच्य २,७० मिन्डो के छ विद्यान मध्यम, २३ पाल बारका, कलकावा-६०० ०३३ विकास कर्तित कार :

বাৰিক মাধাৰণ সন্ধান কৰে সমস্থা সালালো নিকট মোলনামি ১৭ আনাৰ্থ ৫০১৮ কাজিৰ বাংলাকাক ট को साम, तांकक्ष, हे-एक्टेक्स व करांना निर्मानकी बना साहिएकम द्वेग व है-एक्टेक्स करा d ninesis nine ab feelige femilie ment some

ावे गाम औ शह काराजा काम तर, त्यान्तानि (कारनकारने क आधारिताकेका) जिले, ६०३४-अर अल्लाव वाले, २०३० वर शरा ३३ वरा तरि जिल्हे कर्तन्त्रक बाह विल्हाकर COMPANY TO NO. BE SEE BY MALE SERVICE SERVICE AND A COLUMN THE BANKS IN २०३४ वादिन प्रशंत क्रांतिक रक्षाता क्रमा गारतम रुपेरमा देवसूना स्वरणाविका, ० उप \$4418, 52 (MINDER, 2059 (BMS for MAS) 48 41802 (MINDER (MIN) MINDER SE ভাবিৰ খেতে ৯০ বিন সহয়সীয়াত সাধিবিদত সহয়েত হ'বে ২০১৭-১৮ আৰ্থিক ব'বে লক্ষা अवार क्षाप्तावाच्य त्रनाव बहुद योग स्थापन वार्तिन वार्तिन व त्याप्ताव, २०३५ वार्तिन विद्या CHIPMINE CHESS SCS (SCRISS)

देशाचित नक्षतित संसाध समाधा महातन (गाउन नाहतः हेन्स्राचन नक्षतित संसाध नाह পরে পেইজনা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ জারিকা মধ্যে গৈলুনিন ক্লেটিট বেছ নেপ্তান জন্য প্রয়োজ মর সংস্থানে মারালর মধ্য দিতে বর্তা হতে। তুর মারুতে তে সমুদ্র সংস্থার ক্ষেত্র হতে তু (Armille মেজিপান ও পোন টুলকার একেপী, নিবি মানুলকারণী দাবিলেন প্রা.) কি (সিবি) (BIS, কলকার-২০০ ০১৯ -এর নিকী জাতাশার পাটারে তথা হাজ: (বদুনিন ব্যক্তার নামা শের আৰু বিবাইত ডিলেটিকটিই পাটিছিলেইণ্-এব (ডিলি) নিকট স্থানিই আছালত্ৰ পাট জাহারে পুনরত একথবা বিজবি দেবর হলে যে সাধারণ সভার জোলানি আনেকরেন ও । সালোক্য বিভি, ২০১৪-এ বিভি ২০, সেকেটাইবাদ স্বীক্ষার্থ-২ হারা সালোক্ত মধ্যে ২০১৩-এর বারা ১০৮ এবং সেরি (তালিকাভূতির ব্যৱস্থান প্রকাশনার সালোক্যা), বিষ্ ৪৪ ব ৪৭ - এর সংস্থানার ক্রাম্পানি বিশ্ববিদ উপায়ে একিএম - ৫ সংখ্যানে কেট কেবলে স্ রবা ই-জেটারন পবিবেশন হাধানে বাবস্থারিক কোন্তান চলতে। হৈদুবিন জোলান সিচেইর अस्तरक अक्रिक्स (निहारि है-इस्टीमान)-वर हुम क्षेत्र कम हम उन्हें मिन्न विद्वापित स्था ples uneum lefeblebe foreibble feluften (unanbae) uner d সর্বন্ধশের জন্য কোম্পানি সেকেটারি, মি. দেন্তার পথকে ই-ডোলন প্রক্রিমণ সমীক্ষক হিসাবে নি যতে হল ও উপযুক্তভাবে সেটার পরিচালনা পৃথিপিত করা হার।

- ক্ষাত্ম বিষয়ের সঙ্গে আর্টেকের ত্রিপ ও প্রায় কর্ম সংবর্জ ই-ক্ষেত্রিকা প্রতিকা correcte after mater mate fruit first https://www.avoting http://www.blinv.com (40% orbitality 44) 404
- (২) বিমেট ই-জেটবান শনিবার, ৮ দেশিবব, ২০১৮ (সমাল ৯টা) তাবিবে শুরু হা)) (मार्गला, २०)४ (विकास श्रीत) तम हात और तमात (मार्ग्लीन तमात अ हैगात कारन्त रक्षाँ जरहर से वैक वांतिए व नमाइस गाउ एक्सा गाउ से मान्य स क्या है-(स्टोमान प्रविदेश काक करत न । अस्ती त्यारास तेन्य (न्यायातान्त्रन अ প্রতিবাদ মধ্যমে কোট দিলে পরে পেয়বংসপ্রাক সেটি পাপারে পার্কন ন।
- (৩) সহপের ভারিব ৫ সেপ্টেশ্বর, ২০১৮ (ইওডি) মোডাবেক কোল শেলার মুদাবনের আনুপাতিক হারে সনসাদের ভোটদানের অবিভার বাকবে। জেম্পানির শোর পেরাছন এবং সংখ্যে বারিষ ও সেপ্টেরর, ২০১৬ (ইবারি) মেন্ডিং ও বিজ্ঞান্তি ভিস্নপান্নার পরে কোল্লানির সমস্য হয়েছেন তিনি avading rta@comsl.com- व व्यारम्भ गाँग्रित तम देन वादेशि व गामकाश (गास वादिम मात्र विकास-वस गूर्य शिमार्ट है-(कार्रमाध्य समाप्त (सम समाप्त (स्टी अक्रिअर-अ डेमिक्ड शाक्टल मादारन किंक् अक्रिअर-अ एकडे मूनका वि
- (৪) শুধু সর্বাদ্য তারিক মতো ডিলোডিটবনের তথাববারে সদসানের বেজিস্টার বা ট রেক্সিনারে কোন ব্যক্তির নাম নাথানুক থাকলে তিনি বিয়োট ই-ভোলান কথা প্রথ सामग्रहण्य गृविधा महस्रतः।
- (४) वार्डि , मनावर प्रवास क्रिक्टिंग स्थाप क्रिक्ट अन्य प्रतास क्रिक्ट के अकार डेमांकेट देर अवस्थ अस्त्रासम् उसके मिटल गाउसन में कार काइंग्लें उम्मादास बाया WINDS BUILD BURNE WINGOW
- (b) अलाह विवासि द्याकार काम्मानित क वकामेन कारपानित समामा www.evoting.nadl.com -= (##(#) %(#)
- (4) কৃষিধা সাক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে নিয়ন্তাক্ষনগাতার ই-যেন আই-ডি ৪ ট CHARLELA AND ALLS

मृत्रं ब्रांकाहर हर अवत सम्माहस्य स्थाप सहयह कार्या त्यन कार्यात्र व्याचा व्याचारिक, त्रिपि-अव वाक्षिके मान्नव त्याम भविष्ठाना काल , यह वाविष्य प्राप्त विकारि कामान मार्ट्स मम्ब मक्ताएक त्याद बर्ट्स काएक मार्थिक किम-व मिक्क केक विकास बानाकी 14 वस विकास-वस विवासि त्यान्नामीय ठाउरमारी membline.com वस केन वस THE BUT www.cse-india.com 6 www.bseindia.com - 4 most and

बाजाय सबी देशाक्तरेएक्ट्रेंग वि

2000

जाविषा २३ जाताने, २०३७ TOTALINE SHIP

60